

# Act

## Chapter 25

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῆ ἑπαρχείᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς  
फेस्तुस तो पहुँचकर उस प्रांतमें बाद तीन दिनके चढ़ा में  
[G5347](#) [G3767](#) [G1910](#) [G3588](#) [G1885](#) [G3326](#) [G5140](#) [G2250](#) [G0305](#) [G1519](#)

Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας.  
यरूशलेम से कैसरियासे।  
[G2414](#) [G0575](#) [G2542](#)

फिर फेस्तुस ने उस प्रदेश में प्रवेश किया और तीन दिन बाद वह कैसरिया से यरूशलेम को रवाना हो गया।

2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων,  
प्रकटकिया और उसे उन महायाजकोंने और उन प्रमुखोंने उन यहूदियोंके  
[G1718](#) [G5037](#) [G0846](#) [G3588](#) [G0749](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4413](#) [G3588](#) [G2453](#)

κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν,  
केविरुद्ध उस पौलुसके और विनतीकरतेथे उससे  
[G2596](#) [G3588](#) [G3972](#) [G2532](#) [G3870](#) [G0846](#)

वहाँ प्रमुख याजकों और यहूदियों के मुखियाओं ने पौलुस के विरुद्ध लगाये गये अभियोग उसके सामने रखे और उससे प्रार्थना की

3 αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτοῦ -- ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ --  
माँगतेहुए अनुग्रह केविरुद्ध उसके- ताकि बुलवाए उसे में यरूशलेम-  
[G0154](#) [G5485](#) [G2596](#) [G0846](#) [G3704](#) [G3343](#) [G0846](#) [G1519](#) [G2419](#)

ἐνέδραν ποιοῦντες, ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν.  
घात करतेहुए मारने उसे में उस रास्तेपर।  
[G1747](#) [G4160](#) [G0337](#) [G0846](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3598](#)

कि वह पौलुस को यरूशलेम भिजवा कर उन का पक्ष ले। (वे रास्ते में ही उसे मार डालने का षड्यन्त्र बनाये हुए थे।)

4 ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν,  
वह तो तब फेस्तुसने उत्तरदिया रखाजाना उस पौलुसको में कैसरियामें  
[G3588](#) [G3303](#) [G3767](#) [G5347](#) [G0611](#) [G5083](#) [G3588](#) [G3972](#) [G1519](#) [G2542](#)

ἐαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι.  
वहस्वयं और वालाहै में जल्दी जाने।  
[G1438](#) [G1161](#) [G3195](#) [G1722](#) [G5034](#) [G1607](#)

फेस्तुस ने उत्तर दिया, "पौलुस कैसरिया में बन्दी है और वह जल्दी ही वहाँ जाने वाला है।" उसने कहा,

5 Οἱ οὖν ἐν ὑμῖν, φησίν, δυνατοὶ συνκαταβάντες, εἴ τί ἐστιν ἐν  
उन तो में तुममेंसे कहा समर्थ साथउतरकर यदि कुछ है में  
[G3588](#) [G3767](#) [G1722](#) [G4771](#) [G5346](#) [G1415](#) [G4782](#) [G1487](#) [G5100](#) [G1510](#) [G1722](#)

τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον, κατηγορεῖτωσαν αὐτοῦ.  
उस पुरुषमें अनुचित दोषलगाएँ उसपर।  
[G3588](#) [G0435](#) [G0824](#) [G2723](#) [G0846](#)

"तुम अपने कुछ मुखियाओं को मेरे साथ भेज दो और यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे वहाँ उस पर अभियोग लगायें।"

6 Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας, οὐ πλείους ὀκτῶ ἢ δέκα, καταβὰς  
 रहकर और में उनकेबीच दिन नहीं अधिक आठ या दस उतरकर  
[G1304](#) [G1161](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2250](#) [G3756](#) [G4119](#) [G3638](#) [G2228](#) [G1176](#) [G2597](#)

εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσεν τὸν  
 में कैसरियामें उस अगलेदिन बैठकर पर उस न्यायपीठपर आज्ञादी उस  
[G1519](#) [G2542](#) [G3588](#) [G1887](#) [G2523](#) [G1909](#) [G3588](#) [G0968](#) [G2753](#) [G3588](#)

Παῦλον ἀχθῆναι.  
 पौलुसको लाने।  
[G3972](#) [G0071](#)

उनके साथ कोई आठ दस दिन बात कर फेस्तुस कैसरिया चला गया। अगले ही दिन अदालत में न्यायासन पर बैठ कर उसने आज्ञा दी कि पौलुस को पेश किया जाये।

7 παραγενομένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων  
 आनेपर और उसके घेरलिया उसे उन से यरूशलेमसे  
[G3854](#) [G1161](#) [G0846](#) [G4026](#) [G0846](#) [G3588](#) [G0575](#) [G2414](#)

καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες, ἃ οὐκ  
 आएहुए यहूदियोंने बहुत और गंभीर दोष लगातेहुए जिन्हें नहीं  
[G2597](#) [G2453](#) [G4183](#) [G2532](#) [G0926](#) [G0157](#) [G2702](#) [G3739](#) [G3756](#)

ἴσχυον ἀποδείξει.  
 सकतेथे प्रमाणितकरने।  
[G2480](#) [G0584](#)

जब वह पेश हुआ तो यरूशलेम से आये यहूदी उसे घेर कर खड़े हो गये। उन्होंने उस पर अनेक गम्भीर आरोप लगाये किन्तु उन्हें वे प्रमाणित नहीं कर सके।

8 τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι: Οὕτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων,  
 उस पौलुसने प्रतिवादकरतेहुए कि: नहीं केविरुद्ध उस व्यवस्थाके उन यहूदियोंकी  
[G3588](#) [G3972](#) [G0626](#) [G3754](#) [G3777](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G2453](#)

οὕτε εἰς τὸ ἱερόν, οὕτε εἰς Καίσαρά, τι ἥμαρτον.  
 नहीं केविरुद्ध उस मंदिरके नहीं केविरुद्ध कैसरके कुछ मैंनेपापकिया।  
[G3777](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2411](#) [G3777](#) [G1519](#) [G2541](#) [G5100](#) [G0264](#)

पौलुस ने स्वयं अपना बचाव करते हुए कहा, "मैंने यहूदियों के विधान के विरोध में कोई काम नहीं किया है, न ही मन्दिर के विरोध में और न ही कैसर के विरोध में।"

9 ὁ Φῆστος δὲ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ  
 वह फेस्तुसने और चाहतेहुए उन यहूदियोंपर अनुग्रह रखना उत्तरदेकर उस  
[G3588](#) [G5347](#) [G1161](#) [G2309](#) [G3588](#) [G2453](#) [G5485](#) [G2698](#) [G0611](#) [G3588](#)

Παύλῳ, εἶπεν, Θέλω εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀναβὰς, ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι  
 पौलुससे कहा चाहताहै में यरूशलेम चढ़कर वहाँ केविषयमें इनके न्यायकियाजाना  
[G3972](#) [G3004](#) [G2309](#) [G1519](#) [G2414](#) [G0305](#) [G1563](#) [G4012](#) [G3778](#) [G2919](#)

ἐπ' ἐμοῦ?  
 केसामने मेरे?  
[G1909](#) [G1473](#)

फेस्तुस यहूदियों को प्रसन्न करना चाहत था, इसलिए उत्तर में उसने पौलुस से कहा, "तो क्या तू यरूशलेम जाना चाहता है ताकि मैं वहाँ तुझ पर लगाये गये इन अभियोगों का न्याय करूँ?"

10 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος, Ἔστωρ «ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος» εἶμι, οὗ  
 कहा और उस पौलुसने खड़ाहूँ «पर उस न्यायपीठके कैसरकी» हूँ जहाँ  
[G3004](#) [G1161](#) [G3588](#) [G3972](#) [G2476](#) [G1909](#) [G3588](#) [G0968](#) [G2541](#) [G1510](#) [G3757](#)

με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίουσ οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον  
 मेरा चाहिए न्यायकियाजाना। यहूदियोंका कुछनहीं मैंनेअन्यायकिया जैसे भी तू अच्छीतरह  
[G1473](#) [G1163](#) [G2919](#) [G2453](#) [G3762](#) [G0091](#) [G5613](#) [G2532](#) [G4771](#) [G2566](#)

ἐπιγινώσκεις.

जानताहै।

[G1921](#)

पौलुस ने कहा, "इस समय मैं कैसर की अदालत के सामने खड़ा हूँ। मेरा न्याय यहीं किया जाना चाहिये। मैंने यहूदियों के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, इसे तू भी बहुत अच्छी तरह जानता है।

11 εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ, καὶ ἄξιον θανάτου πάπραχά τι, οὐ  
 यदि तो तब अन्यायकरताहूँ और योग्य मृत्युका कियाहै कुछ नहीं  
[G1487](#) [G3303](#) [G3767](#) [G0091](#) [G2532](#) [G0514](#) [G2288](#) [G4238](#) [G5100](#) [G3756](#)

παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν; εἰ δὲ οὐδὲν ἐστὶν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσιν  
 मनाकरताहूँ उससे मरने; यदि और कुछनहीं है जिनका ये दोषलगातेहैं  
[G3868](#) [G3588](#) [G0599](#) [G1487](#) [G1161](#) [G3762](#) [G1510](#) [G3739](#) [G3778](#) [G2723](#)

μου, οὐδεὶς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι!  
 मुझपर कोईनहीं मुझे सकताहै उनको सौंपना। कैसरकी दुहाईदेताहूँ!  
[G1473](#) [G3762](#) [G1473](#) [G1410](#) [G0846](#) [G5483](#) [G2541](#) [G1941](#)

यदि मैं किसी अपराध का दोषी हूँ और मैंने कुछ ऐसा किया है, जिसका दण्ड मृत्यु है तो मैं मरने से बचना नहीं चाहूँगा, किन्तु यदि ये लोग मुझ पर जो अभियोग लगा रहे हैं, उनमें कोई सत्य नहीं है तो मुझे कोई भी इन्हें नहीं सौंप सकता। यही कैसर से मेरी प्रार्थना है।"

12 τότε ὁ Φῆστος, συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου, ἀπεκρίθη, Καίσαρα  
 तब वह फेस्तुसने बातकरके साथ उस परिषदके उत्तरदिया कैसरकी  
[G5119](#) [G3588](#) [G5347](#) [G4814](#) [G3326](#) [G3588](#) [G4824](#) [G0611](#) [G2541](#)

ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύση!  
 तूनेदुहाईदी पास कैसरके जाएगा!  
[G1941](#) [G1909](#) [G2541](#) [G4198](#)

अपनी परिषद् से सलाह करने के बाद फेस्तुस ने उसे उत्तर दिया, "तूने कैसर से पुनर्विचार की प्रार्थना की है, इसलिये तूझे कैसर के सामने ही ले जाया जायेगा।"

13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν, Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη  
 दिनोंके और बीतनेपर कुछ अग्रिप्पा वह राजा और बरनीके  
[G2250](#) [G1161](#) [G1230](#) [G5100](#) [G0067](#) [G3588](#) [G0935](#) [G2532](#) [G0959](#)

κατήνησαν εἰς Καισάρειαν, ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον.  
 आए में कैसरियामें अभिवादनकरतेहुए उस फेस्तुसका।  
[G2658](#) [G1519](#) [G2542](#) [G0782](#) [G3588](#) [G5347](#)

कुछ दिन बाद राजा अग्रिप्पा और बिरनिके फेस्तुस से मिलते कैसरिया आये।

14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο  
 जब और अधिक दिन रहे वहाँ वह फेस्तुसने उस राजाको पेशकिया  
[G5613](#) [G1161](#) [G4119](#) [G2250](#) [G1304](#) [G1563](#) [G3588](#) [G5347](#) [G3588](#) [G0935](#) [G0394](#)

τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, λέγων, Ἄνθρωπός τις ἐστὶν καταλελειμμένος ὑπὸ  
 उन केअनुसार उस पौलुसके कहतेहुए पुरुष कोई है छोड़ाहुआ द्वारा  
[G3588](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3972](#) [G3004](#) [G0435](#) [G5100](#) [G1510](#) [G2641](#) [G5259](#)

Φήλικος δέσμιος,  
 फेलिक्सके बंदी।

[G5344](#) [G1198](#)

जब वे वहाँ कई दिन बिता चुके तो फेस्तुस ने राजा के सामने पौलुस के मुकदमे को इस प्रकार समझाया, “यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे फेलिक्स बंदी के रूप में छोड़ गया था।

15 [περι](#) [οὔ,](#) [γενομένου](#) [μου](#) [εἰς](#) [Ἱεροσόλυμα,](#) [ἐνεφάνισαν](#) [οἱ](#) [ἀρχιερεῖς](#) [καὶ](#)  
केविषयमें जिसके होनेपर मेरे में यरूशलेममें प्रकटकिया उन महायाजकोंने और  
[G4012](#) [G3739](#) [G1096](#) [G1473](#) [G1519](#) [G2414](#) [G1718](#) [G3588](#) [G0749](#) [G2532](#)

[οἱ](#) [πρεσβύτεροι](#) [τῶν](#) [Ἰουδαίων,](#) [αἰτούμενοι](#) [κατ’](#) [αὐτοῦ](#) [καταδίκην;](#)  
उन प्राचीनोंने उन यहूदियोंके माँगतेहुए केविरुद्ध उसके दंड;  
[G3588](#) [G4245](#) [G3588](#) [G2453](#) [G0154](#) [G2596](#) [G0846](#) [G2613](#)

जब मैं यरूशलेम में था, प्रमुख याजकों और बुजुर्गों ने उसके विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया था और माँग की थी कि उसे दण्डित किया जाये।

16 [πρὸς](#) [οὐς](#) [ἀπεκρίθη](#) [ὅτι,](#) [οὐκ](#) [ἔστιν](#) [ἔθος](#) [Ῥωμαίοις](#) [χαρίζεσθαι](#) [τινα](#)  
कीओर जिनको मैंनेउत्तरदिया कि नहीं है रीति रोमियोंकी सौंपना किसी  
[G4314](#) [G3739](#) [G0611](#) [G3754](#) [G3756](#) [G1510](#) [G1485](#) [G4514](#) [G5483](#) [G5100](#)

[ἄνθρωπον](#) [πρὶν](#) [ἢ](#) [ὁ](#) [κατηγορούμενος,](#) [κατὰ](#) [πρόσωπον](#) [ἔχοι](#) [τοὺς](#)  
मनुष्यको पहले जब वह दोषलगायागया के सामने रखे उन  
[G0444](#) [G4250](#) [G2228](#) [G3588](#) [G2723](#) [G2596](#) [G4383](#) [G2192](#) [G3588](#)

[κατηγόρους](#) [τόπον,](#) [τε](#) [ἀπολογίας](#) [λάβοι](#) [περὶ](#) [τοῦ](#) [ἐγκλήματος.](#)  
दोषलगानेवालोंकी अवसर और प्रतिवादका पाए केविषयमें उस दोषके।  
[G2725](#) [G5117](#) [G5037](#) [G0627](#) [G2983](#) [G4012](#) [G3588](#) [G1462](#)

मैंने उनसे कहा, ‘रोमियों में ऐसा चलन नहीं है कि किसी व्यक्ति को, जब तक वादी-प्रतिवादी को आमने-सामने न करा दिया जाये और उस पर लगाये गये अभियोगों से उसे बचाव का अवसर न दे दिया जाये, उसे दण्ड के लिये सौंपा जाये।’

17 [συνελθόντων](#) [οὖν](#) [\[αὐτῶν\]](#) [ἐνθάδε,](#) [ἀναβολὴν](#) [μηδεμίαν](#) [ποιησάμενος,](#) [τῇ](#) [ἐξῆς](#)  
इकट्टेहोनेपर तो [उनके] यहाँ देरी कोईनहीं करके उस अगले  
[G4905](#) [G3767](#) [G0846](#) [G1759](#) [G0311](#) [G3367](#) [G4160](#) [G3588](#) [G1836](#)

[καθίσας](#) [ἐπὶ](#) [τοῦ](#) [βήματος,](#) [ἐκέλευσα](#) [ἀχθῆναι](#) [τὸν](#) [ἄνδρα,](#)  
बैठकर पर उस न्यायपीठपर मैंनेआज्ञादी लाने उस पुरुषको  
[G2523](#) [G1909](#) [G3588](#) [G0968](#) [G2753](#) [G0071](#) [G3588](#) [G0435](#)

“सो वे लोग जब मेरे साथ यहाँ आये तो मैंने बिना देर लगाये अगले ही दिन न्यायासन पर बैठ कर उस व्यक्ति को पेश किये जाने की आज्ञा दी।

18 [περὶ](#) [οὔ,](#) [σταθέντες,](#) [οἱ](#) [κατηγοροὶ](#) [οὐδεμίαν](#) [αἰτίαν](#) [ἔφερον,](#) [ὧν](#) [ἐγὼ](#)  
केविषयमें जिसके खड़ेहोकर उन दोषलगानेवालोंने कोईनहीं कारण लाए जो मैं  
[G4012](#) [G3739](#) [G2476](#) [G3588](#) [G2725](#) [G3762](#) [G0156](#) [G5342](#) [G3739](#) [G1473](#)

[ὑπενόουν](#) [πονηρῶν.](#)  
समझताथा बुराईके।  
[G5282](#) [G4190](#)

जब उस पर दोष लगाने वाले बोलने खड़े हुए तो उन्होंने उस पर ऐसा कोई दोष नहीं लगाया जैसा कि मैं सोच रहा था।

19 [ζητήματα](#) [δέ](#) [τινα](#) [περὶ](#) [τῆς](#) [ἰδίας](#) [δεισιδαιμονίας,](#) [εἶχον](#) [πρὸς](#) [αὐτὸν,](#) [καὶ](#)  
प्रश्न और कुछ केविषयमें उस अपनी धर्मकी रखतेथे केविरुद्ध उसके और  
[G2213](#) [G1161](#) [G5100](#) [G4012](#) [G3588](#) [G2398](#) [G1175](#) [G2192](#) [G4314](#) [G0846](#) [G2532](#)

[περὶ](#) [τινος](#) [Ἰησοῦ](#) [τεθνηκότος,](#) [ὃν](#) [ἔφασκεν](#) [ὁ](#) [Παῦλος](#) [ζῆν.](#)  
केविषयमें किसी यीशूके मरेहुए जिसे दावाकरताथा वह पौलुस जीवितहै।  
[G4012](#) [G5100](#) [G2424](#) [G2348](#) [G3739](#) [G5335](#) [G3588](#) [G3972](#) [G2198](#)

बल्कि उनके अपने धर्म की कुछ बातों पर ही और यीशु नाम के एक व्यक्ति पर जो मर चुका है, उनमें कुछ मतभेद था। यद्यपि पौलुस का दावा है कि वह जीवित है।

20 ἀπορούμενος δὲ, ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον, εἰ βούλοιο  
असमंजसमेंहोकर और मैं उस केविषयमें इनकी जाँचकी कहा यदि चाहे  
[G0639](#) [G1161](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4012](#) [G3778](#) [G2214](#) [G3004](#) [G1487](#) [G1014](#)

πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα, κακεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων.  
जाना मैं यरूशलेम औरवहाँ न्यायकियाजाना केविषयमें इनके।  
[G4198](#) [G1519](#) [G2414](#) [G2546](#) [G2919](#) [G4012](#) [G3778](#)

मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन विषयों की छानबीन कैसे कि जाये, इसलिये मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने इन अभियोगों का न्याय कराने के लिये यरूशलेम जाने को तैयार है?

21 τοῦ δὲ Παύλου, ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ  
उस और पौलुसने दुहाईदेकर रखेजाने उसे केलिए उस उस महाराजके  
[G3588](#) [G1161](#) [G3972](#) [G1941](#) [G5083](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3588](#) [G4575](#)

διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν, ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα.  
निर्णयके मैंनेआज्ञादी रखेजाना उसे जबतक जब भेजूँ उसे पास कैसरके।  
[G1233](#) [G2753](#) [G5083](#) [G0846](#) [G2193](#) [G3739](#) [G0375](#) [G0846](#) [G4314](#) [G2541](#)

किन्तु पौलुस ने जब प्रार्थना की कि उसे सम्राट के न्याय के लिये ही वहाँ रखा जाये, तो मैंने आदेश दिया, कि मैं जब तक उसे कैसर के पास न भिजवा दूँ, उसे यहीं रखा जाये।”

22 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον, Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου  
अग्रिप्पाने और कीओर उस फेस्तुससे चाहताथा भी स्वयं उस मनुष्यकी  
[G0067](#) [G1161](#) [G4314](#) [G3588](#) [G5347](#) [G1014](#) [G2532](#) [G0846](#) [G3588](#) [G0444](#)

ἀκοῦσαι. Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ.  
सुनना। कल कहा सुनेगा उसकी।  
[G0191](#) [G0839](#) [G5346](#) [G0191](#) [G0846](#)

इस पर अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, “इस व्यक्ति की सुनवाई मैं स्वयं करना चाहता हूँ।” फेस्तुस ने कहा, “तुम उसे कल सुन लेना।”

23 Τῇ οὖν ἐπαύριον, ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης, μετὰ πολλῆς  
उस तो अगलेदिन आनेपर उस अग्रिप्पाके और उस बरनीकेके साथ बहुत  
[G3588](#) [G3767](#) [G1887](#) [G2064](#) [G3588](#) [G0067](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0959](#) [G3326](#) [G4183](#)

φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σὺν τε χιλιάρχοις καὶ  
ठटबाटसे और प्रवेशकरके में उस सभागृहमें साथ और सहस्रपतियोंके और  
[G5325](#) [G2532](#) [G1525](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0201](#) [G4862](#) [G5037](#) [G5506](#) [G2532](#)

ἀνδράσιν τοῖς κατ’ ἐξοχῆν τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου, ἦχθη  
पुरुषोंके उन के प्रमुख उस नगरके और आज्ञादेनेपर उस फेस्तुसके लायागया  
[G0435](#) [G3588](#) [G2596](#) [G1851](#) [G3588](#) [G4172](#) [G2532](#) [G2753](#) [G3588](#) [G5347](#) [G0071](#)

ὁ Παῦλος.  
वह पौलुस।  
[G3588](#) [G3972](#)

सो अगले दिन अग्रिप्पा और बिरनिके बड़ी सजधज के साथ आये और उन्होंने सेनानायकों तथा नगर के प्रमुख व्यक्तियों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस ने आज्ञा दी और पौलुस को वहाँ ले आया गया।

- 24 **καὶ** φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες  
 और कहा वह फेस्तुसने अग्रिप्पा राजा और सब उन उपस्थित  
[G2532](#) [G5346](#) [G3588](#) [G5347](#) [G0067](#) [G0935](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4840](#)
- ἡμῖν, ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον, περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων  
 हमारेसाथ पुरुषो देखतेहो इसे केविषयमें जिसके सब वह समूहने उन यहूदियोंके  
[G1473](#) [G0435](#) [G2334](#) [G3778](#) [G4012](#) [G3739](#) [G0537](#) [G3588](#) [G4128](#) [G3588](#) [G2453](#)
- ἐνέτυχόν μοι, ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν  
 विनतीकी मुझसे में और यरूशलेममें और यहाँ चिल्लातेहुए नहीं चाहिए उसे  
[G1793](#) [G1473](#) [G1722](#) [G5037](#) [G2414](#) [G2532](#) [G1759](#) [G0994](#) [G3361](#) [G1163](#) [G0846](#)
- ζῆν μηκέτι.  
 जीना औरनहीं।  
[G2198](#) [G3371](#)

फिर फेस्तुस बोला, "महाराजा अग्रिप्पा तथा उपस्थित सज्जनो! तुम इस व्यक्ति को देख रहे हो जिसके विषय में समूचा यहूदी-समाज, यरूशलेम में और यहाँ, मुझसे चिल्ला-चिल्ला कर माँग करता रहा है कि इसे अब और जीवित नहीं रहने देना चाहिये।

- 25 ἐγὼ δέ, κατελαβόμεν μὴδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι, αὐτοῦ δε  
 मैंने और पाया कुछनहीं योग्य उसने मृत्युका कियाहोना उसनेस्वयं और  
[G1473](#) [G1161](#) [G2638](#) [G3367](#) [G0514](#) [G0846](#) [G2288](#) [G4238](#) [G0846](#) [G1161](#)
- τοῦτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν, ἔκρινα πέμπειν,  
 इसने दुहाईदेकर उस महाराजकी निर्णयकिया भेजने।  
[G3778](#) [G1941](#) [G3588](#) [G4575](#) [G2919](#) [G3992](#)

किन्तु मैंने जाँच लिया है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इसे मृत्युदण्ड दिया जाये। क्योंकि इसने स्वयं सम्राट से पुनर्विचार की प्रार्थना की है इसलिये मैंने इसे वहाँ भेजने का निर्णय लिया है।

- 26 περὶ οὗ, ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ, οὐκ ἔχω. διὸ προήγαγον  
 केविषयमें जिसके निश्चित कुछ लिखने उस स्वामीको नहीं रखताहूँ। इसलिए लाया  
[G4012](#) [G3739](#) [G0804](#) [G5100](#) [G1125](#) [G3588](#) [G2962](#) [G3756](#) [G2192](#) [G1352](#) [G4254](#)
- αὐτὸν ἐφ' ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς  
 उसे केसामने तुम्हारे और विशेषकर केसामने तेरे राजा अग्रिप्पा ताकि उस  
[G0846](#) [G1909](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3122](#) [G1909](#) [G4771](#) [G0935](#) [G0067](#) [G3704](#) [G3588](#)
- ἀνακρίσεως γενομένης, σχῶ τί γράψω.  
 जाँचके होनेपर पाऊँ क्या लिखूँ।  
[G0351](#) [G1096](#) [G2192](#) [G5101](#) [G1125](#)

किन्तु इसके विषय में सम्राट के पास लिख भेजने को मेरे पास कोई निश्चित बात नहीं है। मैं इसे इसीलिये आप लोगों के सामने और विशेष रूप से हे महाराजा अग्रिप्पा! तुम्हारे सामने लाया हूँ ताकि इस जाँच पड़ताल के बाद लिखने को मेरे पास कुछ हो।

- 27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖπέμποντα δέσμιον, μὴ καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ  
 अतर्कसंगत क्योंकि मुझे लगताहै भेजतेहुए बंदीको नहीं भी उन केविरुद्ध उसके  
[G0249](#) [G1063](#) [G1473](#) [G1380](#) [G3992](#) [G1198](#) [G3361](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2596](#) [G0846](#)
- αἰτίας σημᾶνα.  
 दोषोंको बताना।  
[G0156](#) [G4591](#)

कुछ भी हो मुझे किसी बंदी को उसका अभियोग-पत्र तैयार किये बिना वहाँ भेज देना असंगत जान पड़ता है।"